



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 फाल्गुन 1933 (श०)
(सं० पटना 59) पटना, मंगलवार, 21 फरवरी 2012

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

21 फरवरी 2012

सं० नि०प्रा०/नि० 6-02/2011-515—चूँकि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना ज्ञापक-3/एम-59/2010-2025, दिनांक 25.05.2010 द्वारा श्री तख्त हरिमंदिरजी, पटना साहेब के प्रबंधक कमिटी का चुनाव कराने का दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है, और

चूँकि सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या 18827/2008 में दिनांक 07.12.2010 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुसार श्री तख्त हरिमंदिरजी, पटना साहेब के प्रबंधक कमिटी का चुनाव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जाना है,

और चूँकि श्री तख्त हरिमंदिरजी, पटना साहेब के प्रबंधक कमिटी के कुल 15 सदस्यों में से पटना के स्थानीय सिखों से तीन सदस्यों यथा निर्वाचन क्षेत्र सं०-1, निर्वाचन क्षेत्र सं०-2 एवं निर्वाचन क्षेत्र सं०-3 तथा उत्तर बिहार के सिंह सभा एवं सिख सोसाईटी निर्वाचन क्षेत्र एवं दक्षिण बिहार के सिंह सभा एवं सिख सोसाईटी निर्वाचन क्षेत्र से एक-एक सदस्य, यानी कुल 5 सदस्यों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन प्राधिकार के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कराया जाना है,

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008, श्री तख्त हरिमंदिरजी, पटना साहेब के संविधान एवं उपविधियाँ तथा श्री तख्त हरिमंदिरजी, पटना साहेब के प्रबंधक कमिटी के

निर्वाचन की नियमावली एवं विनियम के अधीन राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के स्थानीय सिखों से तीन सदस्यों यथा निर्वाचन क्षेत्र सं०-1, निर्वाचन क्षेत्र सं०-2 एवं निर्वाचन क्षेत्र सं०-3 तथा उत्तर बिहार के सिंह सभा एवं सिख सोसाईटी निर्वाचन क्षेत्र एवं दक्षिण बिहार के सिंह सभा एवं सिख सोसाईटी निर्वाचन क्षेत्र से एक-एक सदस्य के चुनाव हेतु परिशिष्ट-I में संलग्न कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 21.04.2012 की तिथि को नियत करता है और मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य का चुनाव करें।

उक्त निर्वाचन के लिए अधिसूचित निर्वाची पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार संलग्न प्रपत्र-1 में आम सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। मतदान का समय सुबह 7.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न तक होगा। मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन मतदान केन्द्र परिसर में ही संबंधित पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतगणना कराई जायेगी तथा मतगणना से संबंधित सभी कागजातों/ अभिलेखों को निर्वाची पदाधिकारी को सौंपा जायेगा। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पूर्णतः संतुष्ट हो लेने एवं आवश्यक जाँचोपरान्त मतगणना परिणाम की घोषणा दिनांक 22.04.2012 को की जायेगी।

आदेश से,

एन० एस० माधवन,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहेब के प्रबंधक कमिटी का निर्वाचन हेतु कार्यक्रम

परिशिष्ट-I

(i)	प्राधिकार द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना	21.02.2012 (मंगलवार)
(ii)	निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्वाचन संबंधी सूचना का प्रकाशन	23.02.2012 (गुरुवार)
(iii)	नामांकन पत्र प्राप्त करने की तिथि/ अवधि	14.03.2012 से 19.03.2012 तक (कार्य दिवसों को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक)
(iv)	प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची (अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक के विवरण के साथ) का प्रकाशन	20.03.2012 (मंगलवार)
(v)	संवीक्षा की तिथि	21.03.2012 (बुधवार); पूर्वाह्न 11 बजे से।
(vi)	संवीक्षा के दौरान निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन देने की तिथि एवं समय	23.03.2012 (शुक्रवार); अपराह्न 3 बजे तक
(vii)	पुनरीक्षण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादन	24.03.2012 (शनिवार) से 27.03.2012 (मंगलवार) तक
(viii)	विधिमान्य रूप से नामांकित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	28.03.2012 (बुधवार)
(ix)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि/ अवधि	29.03.2012 (गुरुवार) - 5 बजे अपराह्न तक
(x)	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन एवं प्रतीक आवंटन	30.03.2012 (शुक्रवार)
(xi)	निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों का प्रकाशन	04.04.2012 (बुधवार)
(xii)	मतदान की तिथि और समय (सविरोध निर्वाचन की स्थिति में)	21.04.2012 (शनिवार) (7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक)
(xiii)	मतगणना की तिथि	21.04.2012 (शनिवार) (मतदान के समाप्ति के पश्चात् मतदान केन्द्र स्थल पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा)
(xiv)	निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा	22.04.2012 (रविवार)
(xv)	निर्वाचन कार्यक्रम की समाप्ति	23.04.2012 (सोमवार)

आदेश से,
एन० एस० माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 59-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>